

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 334]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2023—आश्विन 28, शक 1945

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2023

फा.क्र. 21-2023-4-RO-ARO-वि.निर्वा.-132.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्र.434-म.प्र.-वि.स.-2023, दिनांक 19 अक्टूबर 2023 एवं अधिसूचना क्र. 434-म.प्र.-वि.स.-2023(1), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है.

राजेश कुमार कौल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्टूबर 2023-27 अश्विन, 1945 (शक)

अधिसूचना

सं. 434-म. प्र.-वि.स.-2023.-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 20 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 434-म.प्र.-वि.स.-2018 का अधिक्रमण करते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य की सरकार की परामर्श से नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकार के अधिकारियों के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में मध्यप्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए, रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित करता है:-

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	रिटर्निंग ऑफिसर (2)
1. श्योपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर
2. विजयपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर
3. सबलगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़
4. जौरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा
5. सुमावली	संयुक्त कलेक्टर मुरैना
6. मुरैना	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना
7. दिमनी	डिप्टी कलेक्टर मुरैना
8. अम्बाह (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अम्बाह
9. अटेर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अटेर
10. भिण्ड	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिण्ड
11. लहार	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लहार
12. मेहगांव	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मेहगांव
13. गोहद (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोहद
14. ग्वालियर ग्रामीण	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ग्वालियर ग्रामीण
15. ग्वालियर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ग्वालियर शहरी
16. ग्वालियर पूर्व	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाँसी रोड
17. ग्वालियर दक्षिण	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लश्कर
18. भितरवार	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भितरवार
19. डबरा (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डबरा
20. सेवड़ा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेवड़ा

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)
21. भाण्डेर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भाण्डेर
22. दतिया	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दतिया
23. करेरा (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) करेरा
24. पोहरी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी
25. शिवपुरी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी
26. पिछोर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर
27. कोलारस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोलारस
28. बामोरी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आरोन
29. गुना (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुना
30. चाचौड़ा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चाचौड़ा
31. राधोगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राधोगढ़
32. अशोकनगर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अशोकनगर
33. चंदेरी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चंदेरी
34. मुंगावली	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगावली
35. बीना (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीना
36. खुरई	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई
37. सुरखी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़
38. देवरी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी
39. रहली	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली
40. नरयावली (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर
41. सागर	नगर दण्डाधिकारी सागर
42. बण्डा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा
43. टीकमगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़
44. जतारा (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा
45. पृथ्वीपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पृथ्वीपुर
46. निवाड़ी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी
47. खरगापुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बल्देवगढ़
48. महाराजपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नौगांव
49. चांदला (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गौरिहार
50. राजनगर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर
51. छतरपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) छतरपुर
52. बिजावर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर
53. मलहरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़ा-मलहरा

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)
54. पथरिया	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पथरिया
55. दमोह	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह
56. जबेरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तेंदुखेड़ा जिला दमोह
57. हटा (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हटा
58. पवई	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पवई
59. गुन्नौर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुन्नौर
60. पन्ना	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना
61. चित्रकूट	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मझगावां
62. रेगाँव (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रघुराजनगर (ग्रामीण)
63. सतना	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रघुराजनगर (शहरी)
64. नागौद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नागौद
65. मैहर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैहर
66. अमरपाटन	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अमरपाटन
67. रामपुर-बघेलान	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामपुर-बघेलान
68. सिरमौर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिरमौर
69. सेमरिया	डिप्टी कलेक्टर, रीवा
70. त्योंथर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) त्योंथर
71. मऊगंज	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हनुमना
72. देवतालाब	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मऊगंज
73. मनगवां (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनगवां
74. रीवा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हूजूर
75. गुढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुढ़
76. चुरहट	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चुरहट
77. सीधी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोपद बनास
78. सिहावल	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिहावल
79. चितरंगी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चितरंगी
80. सिंगरौली	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिंगरौली
81. देवसर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर
82. धौहनी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मझौली
83. ब्यौहारी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यौहारी
84. जयसिंहनगर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर, जिला शहडोल
85. जैतपुर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर
86. कोतमा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोतमा

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)
87. अनूपपुर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनूपपुर
88. पुष्परजगढ़ (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्परजगढ़
89. बांधवगढ़ (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बांधवगढ़
90. मानपुर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मानपुर
91. बड़वारा (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ढीमरखेड़ा
92. विजयराघवगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयराघवगढ़
93. मुड़वारा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटनी
94. बहोरीबंद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बहोरीबंद
95. पाटन	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन
96. बरगी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहपुरा, जिला जबलपुर
97. जबलपुर पूर्व (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अधारताल
98. जबलपुर उत्तर	डिप्टी कलेक्टर जबलपुर
99. जबलपुर केंद्र	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रांझी
100. जबलपुर पश्चिम	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोरखपुर
101. पनागर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ग्रामीण जबलपुर
102. सिहोरा (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिहोरा
103. शहपुरा (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहपुरा, जिला डिंडोरी
104. डिण्डोरी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डिण्डोरी
105. बिछिया (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिछिया
106. निवास (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवास
107. मण्डला (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मण्डला
108. बैहर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैहर
109. लांजी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लांजी
110. परसवाड़ा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) किरनापुर
111. बालाघाट	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बालाघाट
112. वारासिवनी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी
113. कटंगी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटंगी
114. बरघाट (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बरघाट
115. सिवनी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी
116. केवलारी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी
117. लखनादौन (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लखनादौन
118. गोटेगांव (अ.जा.)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर
119. नरसिंहपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहपुर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	रिटनिंग ऑफिसर (2)
120. तेंदूखेड़ा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर
121. गाडरवारा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गाडरवारा
122. जुन्नारदेव (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव
123. अमरवाड़ा (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अमरवाड़ा
124. चौरई	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चौरई
125. सौंसर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सौंसर
126 छिन्दवाड़ा	अपर कलेक्टर (विकास) छिंदवाड़ा
127. परासिया(अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परासिया
128. पांडुर्ना (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पांडुर्ना
129. मुलताई	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई
130. आमला (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आमला
131. बैतूल	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल
132. घोड़ाडोंगरी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर, जिला बैतूल
133. भैंसदेही (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैंसदेही
134. टिमरनी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टिमरनी
135. हरदा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरदा
136. सिवनी मालवा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी मालवा
137. होशंगाबाद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नर्मदापुरम
138. सोहागपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम
139. पिपरिया (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिपरिया
140. उदयपुरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बरेली
141. भोजपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गौहरगंज
142. सांची (अ.जा.)	अपर कलेक्टर (विकास) रायसेन
143. सिलवानी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेगमगंज
144. विदिशा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विदिशा
145. बासौदा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बासौदा
146. कुरवाई (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई
147. सिरोंज	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिरोंज
148. शमशाबाद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नटेरन
149. बैरसिया (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैरसिया जिला भोपाल
150. भोपाल उत्तर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नजूल वृत्त संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) भोपाल
151. नरेला	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नजूल गोविन्दपुरा वृत्त भोपाल

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)
152. भोपाल दक्षिण-पश्चिम	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नजूल टी टी नगर वृत्त भोपाल
153. भोपाल मध्य	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नजूल शहर वृत्त भोपाल
154. गोविन्दपुरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नजूल एम पी नगर वृत्त भोपाल
155. हूजूर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील हूजूर जिला भोपाल
156. बुधनी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बुधनी
157. आष्टा (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आष्टा
158. इछावर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इछावर
159. सीहोर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर
160. नरसिंहगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़
161. ब्यावरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा
162. राजगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़
163. खिलचीपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर
164. सारंगपुर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगपुर
165. सुसनेर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर
166. आगर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आगर
167. शाजापुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाजापुर
168. शुजालपुर	डिप्टी कलेक्टर शाजापुर
169. कालापील	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर
170. सोनकच्छ (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोनकच्छ
171. देवास	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवास
172. हाटपिपल्या	डिप्टी कलेक्टर, देवास
173. खातेगांव	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खातेगांव
174. बागली (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बागली
175. मांधाता	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुनासा
176. हरसूद (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरसूद
177. खण्डवा (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खण्डवा
178. पंधाना (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पंधाना
179. नेपानगर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नेपानगर
180. बुरहानपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बुरहानपुर
181. भीकनगांव (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भीकनगांव
182. बड़वाहा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वाहा
183. महेश्वर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मण्डलेश्वर
184. कसरावद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कसरावद

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)
185. खरगौन	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगौन
186. भगवानपुरा (अ.ज.जा.)	डिप्टी कलेक्टर, खरगौन
187. सेंधवा (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेंधवा
188. राजपुर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर
189. पानसेमल (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पानसेमल
190. बड़वानी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वानी
191. अलीराजपुर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर
192. जोबट (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट
193. झाबुआ (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ
194. थांदला (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) थांदला
195. पेटलावद (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेटलावद
196. सरदारपुर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर
197. गंधवानी (अ.ज.जा.)	सहायक कलेक्टर, धार
198. कुक्षी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुक्षी
199. मनावर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर
200. धरमपुरी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पीथमपुर
201. धार	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धार
202. बदनावर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बदनावर
203. देपालपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देपालपुर
204. इन्दौर-1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मल्हारगंज
205. इन्दौर-2	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कनाडिया
206. इन्दौर-3	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जूनी इंदौर
207. इन्दौर-4	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुडैल
208. इन्दौर-5	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिचौली हप्सी
209. डॉ अम्बेडकरनगर- महू	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डा. अम्बेडकर नगर (महू)
210. राऊ	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राऊ
211. सांवेर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सांवेर
212. नागदा-खाचरोद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खाचरोद
213. महिदपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महिदपुर
214. तराना (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तराना
215. घटिया (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घटिया
216. उज्जैन उत्तर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन शहर
217. उज्जैन दक्षिण	अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्मार्ट सिटी उज्जैन

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)
218. बड़नगर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़नगर
219. रतलाम ग्रामीण(अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रतलाम ग्रामीण
220. रतलाम सिटी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रतलाम सिटी
221. सैलाना (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सैलाना
222. जावरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा
223. आलोट (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आलोट
224. मंदसौर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मंदसौर
225. मल्हारगढ़ (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मल्हारगढ़
226. सुवासरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीतामऊ
227. गरोठ	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गरोठ
228. मनासा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनासा
229. नीमच	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नीमच
230. जावद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावद

आदेश से,
हस्ता./-
(अमित कुमार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated: 19th October 2023—Asvina 27, (Saka) 1945

NOTIFICATION

No. 434-MP-LA-2023.--In exercise of powers conferred by Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its Notification No. 434-MP-LA-2018 dated 20th September. 2018, the Election Commission, hereby designates, in consultation with the Government of Madhya Pradesh, the Officer of the Government specified in column (2) of the Table below, as the Returning Officer (s) of the Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, as Specified in column (1) of the said Table against such Constituency:-

TABLE

No. & Name of Assembly Constituency	Returning Officer
(1)	(2)
1. Sheopur	Sub Divisional Officer (Revenue) Sheopur
2. Vijaypur	Sub Divisional Officer (Revenue) Vijaypur
3. Sabalgarh	Sub Divisional Officer (Revenue) Sabalgarh
4. Joura	Sub Divisional Officer (Revenue) Joura
5. Sumawali	Joint Collector Morena
6. Morena	Sub Divisional Officer (Revenue) Morena
7. Dimani	Deputy Collector Morena

No. & Name of Assembly Constituency (1)	Returning Officer (2)
8. Ambah(SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Ambah
9. Ater	Sub Divisional Officer (Revenue) Ater
10. Bhind	Sub Divisional Officer (Revenue) Bhind
11. Lahar	Sub Divisional Officer (Revenue) Lahar
12. Mehgaon	Sub Divisional Officer (Revenue) Mehgaon
13. Gohad(SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Gohad
14. Gwalior Rural	Sub Divisional Officer (Revenue) Gwalior Rural
15. Gwalior	Sub Divisional Officer (Revenue) Gwalior City
16. Gwalior East	Sub Divisional Officer (Revenue) Jhanshi Road
17. Gwalior South	Sub Divisional Officer (Revenue) Lashkar
18. Bhitwar	Sub Divisional Officer (Revenue) Bhitwar
19. Dabra (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Dabra
20. Sewda	Sub Divisional Officer (Revenue) Sewda
21. Bhandar (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Bhandar
22. Datia	Sub Divisional Officer (Revenue) Datia
23. Karera (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Karera
24. Pohari	Sub Divisional Officer (Revenue) Pohari
25. Shivpuri	Sub Divisional Officer (Revenue) Shivpuri
26. Pichhore	Sub Divisional Officer (Revenue) Pichhore
27. Kolaras	Sub Divisional Officer (Revenue) Kolaras
28. Bamori	Sub Divisional Officer (Revenue) Aron
29. Guna (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Guna
30. Chachoura	Sub Divisional Officer (Revenue) Chachoura
31. Raghogarh	Sub Divisional Officer (Revenue) Raghogarh
32. Ashok Nagar (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Ashok Nagar
33. Chanderi	Sub Divisional Officer (Revenue) Chanderi
34. Mungaoli	Sub Divisional Officer (Revenue) Mungaoli
35. Bina (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Bina
36. Khurai	Sub Divisional Officer (Revenue) Khurai
37. Surkhi	Sub Divisional Officer (Revenue) Rahatgarh
38. Deori	Sub Divisional Officer (Revenue) Deori
39. Rehli	Sub Divisional Officer (Revenue) Rehli
40. Naryoli (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Sagar
41. Sagar	City Magistrate Sagar
42. Banda	Sub Divisional Officer (Revenue) Banda
43. Tikamgarh	Sub Divisional Officer (Revenue) Tikamgarh
44. Jatara (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Jatara
45. Prithvipur	Sub Divisional Officer (Revenue) Prithvipur
46. Niwari	Sub Divisional Officer (Revenue) Niwari
47. Khargapur	Sub Divisional Officer (Revenue) Baldevgarh
48. Maharajpur	Sub Divisional Officer (Revenue) Nowgaon
49. Chandla (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Gorihar
50. Rajnagar	Sub Divisional Officer (Revenue) Rajnagar
51. Chhatarpur	Sub Divisional Officer (Revenue) Chhatarpur
52. Bijawar	Sub Divisional Officer (Revenue) Bijawar
53. Malhara	Sub Divisional Officer (Revenue) Bada-Malhara
54. Pathariya	Sub Divisional Officer (Revenue) Pathariya
55. Damoh	Sub Divisional Officer (Revenue) Damoh

No. & Name of Assembly Constituency (1)	Returning Officer (2)
56. Jabera	Sub Divisional Officer (Revenue) Tendukheda District Damoh
57. Hatta (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Hatta
58. Pawai	Sub Divisional Officer (Revenue) Pawai
59. Gunnaor (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Gunnaor
60. Panna	Sub Divisional Officer (Revenue) Panna
61. Chitrakoot	Sub Divisional Officer (Revenue) Majhgawa
62. Raigaon (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Raghurajnagar (Rural)
63. Satna	Sub Divisional Officer (Revenue) Raghurajnagar (Urban)
64. Nagod	Sub Divisional Officer (Revenue) Nagod
65. Maihar	Sub Divisional Officer (Revenue) Maihar
66. Amarpatan	Sub Divisional Officer (Revenue) Amarpatan
67. Rampur-Baghelan	Sub Divisional Officer (Revenue) Rampur-Baghelan
68. Sirmour	Sub Divisional Officer (Revenue) Sirmour
69. Semariya	Deputy Collector Rewa
70. Teonthar	Sub Divisional Officer (Revenue) Teonthar
71. Mauganj	Sub Divisional Officer (Revenue) Hanumana
72. Deotalab	Sub Divisional Officer (Revenue) Mauganj
73. Mangawan (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Mangawan
74. Rewa	Sub Divisional Officer (Revenue) Huzur
75. Gurh	Sub Divisional Officer (Revenue) Gurh
76. Churhat	Sub Divisional Officer (Revenue) Churhat
77. Sidhi	Sub Divisional Officer (Revenue) Gopad Banas
78. Sihawal	Sub Divisional Officer (Revenue) Sihawal
79. Chitrangi (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Chitrangi
80. Singrauli	Sub Divisional Officer (Revenue) Singrauli
81. Devsar (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Devsar
82. Dhauhani (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Majhouli
83. Beohari (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Beohari
84. Jaisingnagar (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Sohagpur District Shahdol
85. Jaitpur (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Jaitpur
86. Kotma	Sub Divisional Officer (Revenue) Kotma
87. Anuppur (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Anuppur
88. Pushprajgarh (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Pushprajgarh
89. Bandhavgarh (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Bandhavgarh
90. Manpur (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Manpur
91. Barwara (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Dheemarkheda
92. Vijayraghavgarh	Sub Divisional Officer (Revenue) Vijayraghavgarh

No. & Name of Assembly Constituency (1)	Returning Officer (2)
93. Murwara	Sub Divisional Officer (Revenue) Katni
94. Bahoriband	Sub Divisional Officer (Revenue) Bahoriband
95. Patan	Sub Divisional Officer (Revenue) Patan
96. Bargi	Sub Divisional Officer (Revenue) Shahpura, District Jabalpur
97. Jabalpur Purba (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Adhartal
98. Jabalpur Uttar	Deputy Collector Jabalpur
99. Jabalpur Cantt.	Sub Divisional Officer (Revenue) Ranjhi
100. Jabalpur Paschim	Sub Divisional Officer (Revenue) Gorakhpur
101. Panagar	Sub Divisional Officer (Revenue) Rural Jabalpur
102. Sihora (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Sihora
103. Shahpura (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Shahpura, District Dindori
104. Dindori (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Dindori
105. Bichhiya (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Bichhiya
106. Niwas (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Niwas
107. Mandla (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Mandla
108. Baihar (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Baihar
109. Lanji	Sub Divisional Officer (Revenue) Lanji
110. Paraswada	Sub Divisional Officer (Revenue) Kirnapur
111. Balaghat	Sub Divisional Officer (Revenue) Balaghat
112. Waraseoni	Sub Divisional Officer (Revenue) Warasconi
113. Katangi	Sub Divisional Officer (Revenue) Katangi
114. Barghat (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Barghat
115. Seoni	Sub Divisional Officer (Revenue) Seoni
116. Keolari	Sub Divisional Officer (Revenue) Keolari
117. Lakhnadon (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Lakhnadon
118. Gotegaon (SC)	Chief executive officer Zila Panchayat, Narsinghpur
119. Narsingpur	Sub Divisional Officer (Revenue) Narsingpur
120. Tendukheda	Sub Divisional Officer (Revenue) Tendukheda District Narsinghpur
121. Gadarwara	Sub Divisional Officer (Revenue) Gadarwara
122. Junnardeo (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Junnardeo
123. Amarwara (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Amarwara
124. Churai	Sub Divisional Officer (Revenue) Churai
125. Saunsar	Sub Divisional Officer (Revenue) Saunsar
126. Chhindwara	Additional Collector (Development) Chhindwara
127. Parasia (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Parasia
128. Pandhurna (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Pandhurna

No. & Name of Assembly Constituency	Returning Officer
(1)	(2)
129. Multai	Sub Divisional Officer (Revenue) Multai
130. Amla (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Amla
131. Betul	Sub Divisional Officer (Revenue) Betul
132. Ghoradongri (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Shahpur District Betul
133. Bhainsdehi (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Bhainsdehi
134. Timarni (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Timarni
135. Harda	Sub Divisional Officer (Revenue) Harda
136. Seoni-Malwa	Sub Divisional Officer (Revenue) Seoni Malwa
137. Hoshangabad	Sub Divisional Officer (Revenue) Narmadapuram
138. Sohagpur	Sub Divisional Officer (Revenue) Sohagpur District Narmadapuram
139. Pipariya (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Pipariya
140. Udaipura	Sub Divisional Officer (Revenue) Bareilly
141. Bhojpur	Sub Divisional Officer (Revenue) Goharganj
142. Sanchi (SC)	Additional Collector (Development) Raisen
143. Silwani	Sub Divisional Officer (Revenue) Begumganj
144. Vidisha	Sub Divisional Officer (Revenue) Vidisha
145. Basoda	Sub Divisional Officer (Revenue) Basoda
146. Kurwai (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Kurwai
147. Sironj	Sub Divisional Officer (Revenue) Sironj
148. Shamshabad	Sub Divisional Officer (Revenue) Nateran
149. Berasia (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Berasia District Bhopal
150. Bhopal Uttar	Sub Divisional Officer (Revenue) Nazul Circle Sant Hirdaram Nagar (Bairagarh) Bhopal
151. Narela	Sub Divisional Officer (Revenue) Nazul Govindpura Circle Bhopal
152. Bhopal Dakshin-Paschim	Sub Divisional Officer (Revenue) Nazul T. T Nagar Circle Bhopal
153. Bhopal Madhya	Sub Divisional Officer (Revenue) Nazul City Circle Bhopal
154. Govindpura	Sub Divisional Officer (Revenue) Nazul M.P Nagar Circle Bhopal
155. Huzur	Sub Divisional Officer (Revenue) Tehsil Huzur District Bhopal
156. Budhni	Sub Divisional Officer (Revenue) Budhni
157. Ashta(SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Ashta
158. Ichhawar	Sub Divisional Officer (Revenue) Ichhawar
159. Schore	Sub Divisional Officer (Revenue) Schore
160. Narsinghgarh	Sub Divisional Officer (Revenue) Narsinghgarh
161. Biaora	Sub Divisional Officer (Revenue) Biaora
162. Rajgarh	Sub Divisional Officer (Revenue) Rajgarh

No. & Name of Assembly Constituency	Returning Officer
(1)	(2)
163. Khilchipur	Sub Divisional Officer (Revenue) Khilchipur
164. Sarangpur(SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Sarangpur
165. Susner	Sub Divisional Officer (Revenue) Susner
166. Agar(SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Agar
167. Shajapur	Sub Divisional Officer (Revenue) Shajapur
168. Shujalpur	Deputy Collector Shajapur
169. Kalapipal	Sub-Divisional Officer (Revenue) Shujalpur
170. Sonkatch(SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Sonkatch
171. Dewas	Sub Divisional Officer (Revenue) Dewas
172. Hatpipliya	Deputy Collector, Dewas
173. Khategaon	Sub Divisional Officer (Revenue) Khategaon
174. Bagali (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Bagali
175. Mandhata	Sub Divisional Officer (Revenue) Punasa
176. Harsud (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Harsud
177. Khandwa(SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Khandwa
178. Pandhana (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Pandhana
179. Nepanagar (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Nepanagar
180. Burhanpur	Sub Divisional Officer (Revenue) Burhanpur
181. Bhikangaon (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Bhikangaon
182. Badwah	Sub Divisional Officer (Revenue) Badwaha
183. Maheshwar (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Mandleshwar
184. Kasrawad	Sub Divisional Officer (Revenue) Kasrawad
185. Khargone	Sub Divisional Officer (Revenue) Khargone
186. Bhagwanpura(ST)	Deputy Collector Khargone
187. Sendhawa(ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Sendhawa
188. Rajpur(ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Rajpur
189. Pansemal(ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Pansemal
190. Badwani(ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Badwani
191. Alirajpur(ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Alirajpur
192. Jobat(ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Jobat
193. Jhabua(ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Jhabua
194. Thandla(ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Thandla
195. Petlawad(ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Petlawad
196. Sardarpur(ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Sardarpur
197. Gandhwani (ST)	Assistant Collector Dhar
198. Kukshi(ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Kukshi
199. Manawar(ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Manawar

No. & Name of Assembly Constituency (1)	Returning Officer (2)
200. Dharampuri (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Pithampur
201. Dhar	Sub Divisional Officer (Revenue) Dhar
202. Badnawar	Sub Divisional Officer (Revenue) Badnawar
203. Depalpur	Sub Divisional Officer (Revenue) Depalpur
204. Indore-1	Sub Divisional Officer (Revenue) Malharganj
205. Indore-2	Sub Divisional Officer (Revenue) Kanadiya
206. Indore-3	Sub Divisional Officer (Revenue) Juni Indore
207. Indore-4	Sub Divisional Officer (Revenue) Khudel
208. Indore-5	Sub Divisional Officer (Revenue) Bhicholi Hapsi
209. Dr. Ambedkar Nagar-Mhow	Sub Divisional Officer (Revenue) Dr. Ambedkar nagar (Mhow)
210. Rau	Sub Divisional Officer (Revenue) Rau
211. Sanwer (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Sanwer
212. Nagada-Khachrod	Sub Divisional Officer (Revenue) Khachrod
213. Mahidpur	Sub Divisional Officer (Revenue) Mahidpur
214. Tarana(SC)	Sub Divisional Officer (Revenue)Tarana
215. Ghatiya(SC)	Sub Divisional Officer (Revenue)Ghatiya
216. Ujjain Uttar	Sub Divisional Officer (Revenue)Ujjain City
217. Ujjain Dakshin	Upper Collector & CEO Smart City, Ujjain
218. Badnagar	Sub Divisional Officer (Revenue) Badnagar
219. Ratlam Rural(ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Ratlam Rural
220. Ratlam City	Sub Divisional Officer (Revenue) Ratlam City
221. Sailana(ST)	Sub Divisional Officer (Revenue) Sailana
222. Jaora	Sub Divisional Officer (Revenue) Jaora
223. Alot(SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Alot
224. Mandsour	Sub Divisional Officer (Revenue) Mandsour
225. Malhargarh(SC)	Sub Divisional Officer (Revenue) Malhargarh
226. Suwasra	Sub Divisional Officer (Revenue) Sitamau
227. Garoth	Sub Divisional Officer (Revenue) Garoth
228. Manasa	Sub Divisional Officer (Revenue) Manasa
229. Neemuch	Sub Divisional Officer (Revenue) Necmuch
230. Jawad	Sub Divisional Officer (Revenue) Jawad

By order,
Sd./-
(AMIT KUMAR)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्टूबर 2023-27 अश्विन, 1945 (शक)

अधिसूचना

सं. 434-म. प्र.-वि.स.-2023 (1).-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 20 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 434-म.प्र.-वि.स. 2018 (1) का अधिक्रमण करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकार के अधिकारियों को उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में मध्यप्रदेश राज्य के विनिर्दिष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर को उनके कार्यों के निष्पादन में मदद करने के लिए, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित करता है:-

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (2)
1. श्योपुर	1-तहसीलदार, श्योपुर
	2-तहसीलदार, बड़ोदा
	3-नायब तहसीलदार, मानपुर
2. विजयपुर	1-तहसीलदार, विजयपुर
	2-तहसीलदार, कराहल
	3-तहसीलदार, चीरपुर
3. सबलगाढ़	1-तहसीलदार, सबलगाढ़
	2-नायब तहसीलदार-1, सबलगाढ़
	3-नायब तहसीलदार-1, कैलारस
4. जौरा	1-तहसीलदार, कैलारस
	2-नायब तहसीलदार-1, जौरा
	3-नायब तहसीलदार-2, जौरा
5. सुमावली	1-तहसीलदार, जौरा
	2-तहसीलदार, मुरैना ग्रामीण
	3-नायब तहसीलदार-1, मुरैना शहरी
6. मुरैना	1-तहसीलदार, मुरैना शहरी
	2-तहसीलदार, बानमौर
	3-नायब तहसीलदार, बानमौर
7. दिमनी	1-तहसीलदार, अम्बाह
	2-नायब तहसीलदार-2, मुरैना ग्रामीण
	3-नायब तहसीलदार-2, अम्बाह

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)
8. अम्बाह (अ.जा.)	1-तहसीलदार, पौरसा 2-नायब तहसीलदार-1, अम्बाह 3-नायब तहसीलदार, पौरसा
9. अटेर	1-तहसीलदार, अटेर 2-नायब तहसीलदार, सुरपुरा 3- नायब तहसीलदार, पीपरी
10. भिण्ड	1-तहसीलदार शहरी, भिण्ड 2-तहसीलदार ग्रामीण, भिण्ड 3-नायब तहसीलदार, भिण्ड
11. लहार	1-तहसीलदार, लहार 2-तहसीलदार, मिहोना 3-नायब तहसीलदार, लहार
12. मेहगांव	1-तहसीलदार, मेहगांव 2-तहसीलदार, गोरमी 3-नायब तहसीलदार, मेहगांव
13. गोहद (अ.जा.)	1-तहसीलदार, गोहद 2-तहसीलदार, मौं 3-नायब तहसीलदार, गोहद
14. ग्वालियर ग्रामीण	1-तहसीलदार, तानसेन 2-नायब तहसीलदार, मुरार 3-नायब तहसीलदार, हस्तिनापुर
15. ग्वालियर	1-तहसीलदार, मुरार 2-नायब तहसीलदार, पुरानी छावनी 3-नायब तहसीलदार, बहोडापुर
16. ग्वालियर पूर्व	1-तहसीलदार, सिटी सेंटर 2-नायब तहसीलदार, मेहरा 3-नायब तहसीलदार, उटीला
17. ग्वालियर दक्षिण	1-नायब तहसीलदार, लशकर-1 2-नायब तहसीलदार, लशकर-2 3-अधीक्षक, भू-अभिलेख, ग्वालियर
18. भितरवार	1-तहसीलदार, भितरवार 2-तहसीलदार, घाटीगाव 3-नायब तहसीलदार, चीनोर
19. डबरा (अ.जा.)	1-तहसीलदार, डबरा 2-नायब तहसीलदार, डबरा-1 3-नायब तहसीलदार, डबरा-2
20. सेवड़ा	1-तहसीलदार, इन्दरगढ़ 2-नायब तहसीलदार-1, सेवड़ा 3-नायब तहसीलदार-2, सेवड़ा

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)
21. भाण्डेर (अ.जा.)	1-तहसीलदार, भाण्डेर 2-नायब तहसीलदार-1, भाण्डेर 3-नायब तहसीलदार-2, भाण्डेर
22. दतिया	1-तहसीलदार, दतिया 2-नायब तहसीलदार-1, दतिया 3-नायब तहसीलदार-2, दतिया
23. करैरा (अ.जा.)	1-तहसीलदार, करैरा 2-नायब तहसीलदार, करैरा 3-नायब तहसीलदार, नरवर
24. पोहरी	1-तहसीलदार, पोहरी 2-नायब तहसीलदार, पोहरी 3-नायब तहसीलदार, बैराड़
25. शिवपुरी	1-तहसीलदार, शिवपुरी 2-नायब तहसीलदार, शिवपुरी 3-नायब तहसीलदार, खोड़ (पिछोर)
26. पिछोर	1-तहसीलदार, पिछोर 2-नायब तहसीलदार, पिछोर 3-तहसीलदार, खनियाधाना
27. कोलारस	1-तहसीलदार, कोलारस 2-नायब तहसीलदार, कोलारस 3-नायब तहसीलदार, बदरवास
28. बामोरी	1-तहसीलदार, बामोरी 2-नायब तहसीलदार, वृत्त फतेहगढ़, तहसील, बामोरी 3-नायब तहसीलदार, वृत्त ऊमरी, तहसील गुना (ग्रामीण)
29. गुना (अ.जा.)	1-तहसीलदार, गुना (ग्रामीण) 2-तहसीलदार, गुना (शहरी) 3-नायब तहसीलदार, गुना (शहरी)
30. चाचौड़ा	1-तहसीलदार, चाचौड़ा 2- तहसीलदार, कुम्भराज 3-नायब तहसीलदार, मधुसूदनगढ़
31. राधोगढ़	1-तहसीलदार, राधोगढ़ 2-तहसीलदार, मधुसूदनगढ़ 3- तहसीलदार, आरोन
32. अशोकनगर (अ.जा.)	1-तहसीलदार, अशोकनगर 2-नायब तहसीलदार, अशोकनगर 3-तहसीलदार, शाढीरा
33. चंदेरी	1-तहसीलदार, चंदेरी 2-तहसीलदार, ईसागढ़ 3-तहसीलदार, नईसराय

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (2)
34. मुंगावली	1-तहसीलदार, मुंगावली 2-तहसीलदार, बहादुरपुर 3-तहसीलदार, पिपरई
35. बीना (अ.जा.)	1-तहसीलदार, बीना 2-नायब तहसीलदार, बीना 3-नायब तहसीलदार, बीना
36. खुरई	1-तहसीलदार, खुरई 2-तहसीलदार, मालथौन 3-नायब तहसीलदार, खुरई
37. सुरखी	1-तहसीलदार, राहतगढ़ 2-तहसीलदार, जैसीनगर 3-नायब तहसीलदार, राहतगढ़
38. देवरी	1-तहसीलदार, देवरी 2-तहसीलदार, केसली 3-नायब तहसीलदार, देवरी
39. रहली	1-तहसीलदार, रहली 2-तहसीलदार, गढ़ाकोटा 3-नायब तहसीलदार, रहली
40. नरयावली (अ.जा.)	1-तहसीलदार, सागर (ग्रामीण) 2-नायब तहसीलदार, नरयावली 3-नायब तहसीलदार, सागर (ग्रामीण)
41. सागर	1-तहसीलदार (शहरी), सागर 2-अधीक्षक भू-अभिलेख, सागर 3-नायब तहसीलदार, सागर (शहरी)
42. बण्डा	1-तहसीलदार, बण्डा 2-तहसीलदार, शाहगढ़ 3-नायब तहसीलदार, बण्डा
43. टीकमगढ़	1-तहसीलदार, टीकमगढ़ 2-तहसीलदार, बड़ागांव 3-नायब तहसीलदार, समरी
44. जतारा (अ.जा.)	1-तहसीलदार, जतारा 2-तहसीलदार, लिधौरा 3-नायब तहसीलदार, बराना
45. पृथ्वीपुर	1-तहसीलदार, पृथ्वीपुर 2-तहसीलदार, मोहनगढ़ 3-नायब तहसीलदार, जेरोन
46. निवाड़ी	1-तहसीलदार, निवाड़ी 2-तहसीलदार, ओरछा 3-नायब तहसीलदार, निवाड़ी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (2)
47. खरगापुर	1-तहसीलदार, पलेरा 2-तहसीलदार, खरगापुर 3-तहसीलदार, बलदेवगढ़
48. महाराजपुर	1-तहसीलदार, नौगांव 2-नायब तहसीलदार, नौगांव 3-तहसीलदार, महाराजपुर
49. चांदला (अ.जा.)	1-तहसीलदार, लघकुशनगर 2-तहसीलदार, चांदला 3- तहसीलदार, गौरिहार
50. राजनगर	1-तहसीलदार, राजनगर 2-नायब तहसीलदार, राजनगर 3- नायब तहसीलदार, चन्द्रनगर
51. छतरपुर	1-तहसीलदार, छतरपुर (नगर) 2-तहसीलदार, छतरपुर (ग्रामीण) 3-नायब तहसीलदार, छतरपुर
52. बिजावर	1-तहसीलदार, बिजावर 2-नायब तहसीलदार, बिजावर 3-नायब तहसीलदार, देवरा
53. मलहरा	1-तहसीलदार, बडामलहरा 2- तहसीलदार, बक्सवाहा 3-तहसीलदार, घुवारा
54. पथरिया	1-तहसीलदार, पथरिया 2-तहसीलदार, बटियागढ़ 3-नायब तहसीलदार, पथरिया
55. दमोह	1-तहसीलदार, दमोह 2-तहसीलदार, दमयंतीपुरम, दमोह 3-नायब तहसीलदार, दमोह
56. जबेरा	1-तहसीलदार, तेन्दूखेडा 2-तहसीलदार, जबेरा 3-नायब तहसीलदार, बलवार
57. हटा (अ.जा.)	1-तहसीलदार, हटा 2-नायब तहसीलदार, पटेरा 3-नायब तहसीलदार, हटा
58. पवई	1-तहसीलदार, पवई 2-तहसीलदार, शाहनगर 3-तहसीलदार, सिमरिया
59. गुन्नौर (अ.जा.)	1-तहसीलदार, गुन्नौर 2-तहसीलदार, देवेन्द्रनगर 3-तहसीलदार, अगालगंज

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (2)
60. पन्ना	1-तहसीलदार, पन्ना 2-तहसीलदार, अजयगढ़ 3-नायब तहसीलदार, पन्ना
61. चित्रकूट	1-तहसीलदार, मझगवां 2-नायब तहसीलदार, बिरसिंहपुर 3-नायब तहसीलदार, मझगवां
62. रेगोंव (अ.जा.)	1-तहसीलदार, कोठी 2-नायब तहसीलदार-1, रघुराजनगर 3-नायब तहसीलदार, नागौद
63. सतना	1-तहसीलदार, रघुराजनगर 2-नायब तहसीलदार-2, रघुराजनगर 3-नायब तहसीलदार-3, रघुराजनगर
64. नागौद	1-तहसीलदार, नागौद 2-नायब तहसीलदार, नागौद 3-नायब तहसीलदार, उचेहरा
65. मैहर	1-तहसीलदार, मैहर 2-नायब तहसीलदार-1, मैहर 3-नायब तहसीलदार-2, मैहर
66. अमरपाटन	1-तहसीलदार, अमरपाटन 2-नायब तहसीलदार, अमरपाटन 3-तहसीलदार, रामनगर
67. रामपुर-बघेलान	1-तहसीलदार, रामपुर बघेलान 2-नायब तहसीलदार-1, रामपुर बघेलान 3-नायब तहसीलदार, कोटर
68. सिरमौर	1- सहायक कलेक्टर, रीवा 2- तहसीलदार, सिरमौर 3-तहसीलदार, जवा
69. सेमरिया	1-तहसीलदार, सेमरिया 2-नायब तहसीलदार, सेमरिया 3-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सिरमौर
70. त्यौंथर	1-तहसीलदार, त्यौंथर 2-नायब तहसीलदार, त्यौंथर 3-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, त्यौंथर
71. मऊगंज	1-तहसीलदार, हनुमना 2-नायब तहसीलदार, हनुमना 3-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, हनुमना
72. देवतालाब	1-तहसीलदार मऊगंज 2-नायब तहसीलदार, नईगढ़ी 3-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नईगढ़ी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (2)
73. मनगवाँ (अ.जा.)	1-तहसीलदार, मनगवा 2-नायब तहसीलदार, मनगवा 3-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गंगेव
74. रीवा	1-तहसीलदार, हुजूर 2-नायब तहसीलदार, हुजूर-1 3-नायब तहसीलदार, हुजूर-2
75. गुढ़	1-तहसीलदार, गुढ़ 2- तहसीलदार, रायपुर कर्चुलियान 3-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान
76. चुरहट	1-तहसीलदार, चुरहट 2-तहसीलदार, रामपुर नैकिन 3-नायब तहसीलदार, चुरहट
77. सीधी	1-तहसीलदार, गोपद बनास 2-नायब तहसीलदार, गोपद बनास 3-नायब तहसीलदार (सेमरिया), गोपद बनास
78. सिहावल	1-तहसीलदार, सिहावल 2-तहसीलदार, बहरी 3-नायब तहसीलदार, सिहावल
79. चितरंगी (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, चितरंगी 2-नायब तहसीलदार-1, चितरंगी 3-नायब तहसीलदार-2, चितरंगी
80. सिंगरौली	1-तहसीलदार, सिंगरौली (शहरी) 2-तहसीलदार, सिंगरौली 3-नायब तहसीलदार, सिंगरौली
81. देवसर (अ.जा.)	1-तहसीलदार, देवसर 2-तहसीलदार, सरई 3-तहसीलदार, माडा
82. धौहनी (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, मझौली 2-तहसीलदार, कुसमी 3-नायब तहसीलदार, मझौली
83. ब्यौहारी (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, ब्यौहारी 2-नायब तहसीलदार, जयसिंहनगर 3-नायब तहसीलदार, ब्यौहारी
84. जयसिंहनगर (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, सोहागपुर 2-नायब तहसीलदार, गोहपारू 3-नायब तहसीलदार, सोहागपुर
85. जैतपुर (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, जैतपुर 2-नायब तहसीलदार, बुढार 3-नायब तहसीलदार, जैतपुर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)
86. कोतमा (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, कोतमा 2-नायब तहसीलदार-1, कोतमा 3-नायब तहसीलदार-2, कोतमा
87. अनूपपुर (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, अनूपपुर 2-नायब तहसीलदार-1, अनूपपुर 3-नायब तहसीलदार-2, अनूपपुर
88. पुष्पराजगढ़ (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, पुष्पराजगढ़ 2-नायब तहसीलदार-1, पुष्पराजगढ़ 3-नायब तहसीलदार-2, पुष्पराजगढ़
89. बांधवगढ़ (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, बांधवगढ़ 2-तहसीलदार, चदिया 3-तहसीलदार, नौरोजाबाद
90. मानपुर (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, मानपुर 2-तहसीलदार, पाली 3-नायब तहसीलदार, ताला
91. बड़वारा (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, बड़वारा 2-तहसीलदार, ढीमरखेड़ा 3-नायब तहसीलदार, उमरियापान
92. विजयराघवगढ़	1-तहसीलदार, विजयराघवगढ़ 2-तहसीलदार, बरही 3-नायब तहसीलदार, सिनगौडी
93. मुड़वारा	1-तहसीलदार, कंटनी 2-नायब तहसीलदार, मुड़वारा 3-नायब तहसीलदार, पहाड़ी
94. बहोरीबंद	1-तहसीलदार, सीठी 2-तहसीलदार, बहोरीबन्द 3-नायब तहसीलदार स्लीमनाबाद
95. पाटन	1-तहसीलदार, पाटन 2- तहसीलदार, मझौली 3-नायब तहसीलदार, पाटन
96. बरगी	1-तहसीलदार, जबलपुर (ग्रामीण) 2-तहसीलदार, शाहपुरा, जबलपुर 3-नायब तहसीलदार, बरगी, जबलपुर
97. जबलपुर पूर्व (अ.जा.)	1-तहसीलदार, आधारताल, जबलपुर 2-नायब तहसीलदार, आधारताल, जबलपुर 3-नायब तहसीलदार (नजूल), जबलपुर
98. जबलपुर उत्तर	1-नायब तहसीलदार, आधारताल जबलपुर 2-सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जबलपुर 3- नायब तहसीलदार, नजूल, कलेक्ट्रेट जबलपुर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (2)
99. जबलपुर कैंट	1-तहसीलदार, रांझी, जबलपुर 2-नायब तहसीलदार, रांझी, जबलपुर 3-नायब तहसीलदार, पनागर, जबलपुर
100. जबलपुर पश्चिम	1-तहसीलदार, गोरखपुर, जबलपुर 2-नायब तहसीलदार, गोरखपुर, जबलपुर 3-नायब तहसीलदार, गोरखपुर, जबलपुर
101. पनागर	1-तहसीलदार, पनागर, जबलपुर 2-नायब तहसीलदार, पनागर, जबलपुर 3-नायब तहसीलदार बरेला, जबलपुर
102. सिहोरा (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, सिहोरा, जबलपुर 2-तहसीलदार, कुण्डम, जबलपुर 3-नायब तहसीलदार, सीहोरा, जबलपुर
103. शहपुरा (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, शहपुरा 2-नायब तहसीलदार, शहपुरा 3-नायब तहसीलदार, अमरपुर
104. डिण्डोरी (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, डिण्डोरी 2-नायब तहसीलदार, बजाग 3-नायब तहसीलदार, समनापुर
105. बिछिया (अ.ज.जा.)	1-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घुघरी 2-तहसीलदार, बिछिया 3-नायब तहसीलदार, मयई
106. निवास (अ.ज.जा.)	1-डिप्टी कलेक्टर, मण्डला-1 2-तहसीलदार, निवास 3-नायब तहसीलदार, बीजाडांडी
107. मण्डला (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, मण्डला 2-नायब तहसीलदार, बम्हनी 3-नायब तहसीलदार, चिरईडोंगरी
108. बैहर (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, बैहर 2-नायब तहसीलदार, बैहर 3-तहसीलदार, बिरसा
109. लांजी	1-तहसीलदार, लांजी 2-नायब तहसीलदार, लांजी 3-तहसीलदार, किरनापुर
110. परसवाड़ा	1-तहसीलदार, परसवाड़ा 2-नायब तहसीलदार-1, लामता बालाघाट 3-सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, बालाघाट
111. बालाघाट	1-तहसीलदार, बालाघाट 2-नायब तहसीलदार-1, हट्टा बालाघाट 3-तहसीलदार, लालबरी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (2)
112. वारासिवनी	1-तहसीलदार, वारासिवनी 2-नायब तहसीलदार, वारासिवनी 3-तहसीलदार खैरलांजी
113. कटंगी	1-तहसीलदार, कटंगी 2-नायब तहसीलदार, कटंगी 3-तहसीलदार, तिरोडी
114. बरघाट (अ.ज.जा.)	1-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरई 2-तहसीलदार, बरघाट 3-तहसीलदार, कुरई
115. सिवनी	1-तहसीलदार, सिवनी 2-तहसीलदार, छपारा 3-नायब तहसीलदार, सिवनी
116. केवलारी	1-तहसीलदार, केवलारी 2-तहसीलदार, धनौरा 3-नायब तहसीलदार, केवलारी
117. लखनादौन (अ.ज.जा.)	1-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घंसीर 2-तहसीलदार, लखनादौन 3-तहसीलदार, घंसीर
118. गोटेगांव (अ.जा.)	1-तहसीलदार, गोटेगांव 2-नायब तहसीलदार-1, गोटेगांव 3-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गोटेगांव
119. नरसिंहपुर	1-तहसीलदार, नरसिंहपुर 2- तहसीलदार, करेली 3-नायब तहसीलदार, नरसिंहपुर
120. तैदूखेड़ा	1-तहसीलदार, तैदूखेड़ा 2- अतिरिक्त तहसीलदार, गाडरवारा 3-नायब तहसीलदार, तैदूखेड़ा
121. गाडरवारा	1-तहसीलदार, गाडरवारा 2-नायब तहसीलदार-1, गाडरवारा 3-नायब तहसीलदार-2, गाडरवारा
122. जुन्नारदेव (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, जुन्नारदेव 2-तहसीलदार, तामिया 3-नायब तहसीलदार, जुन्नारदेव
123. अमरवाड़ा (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, अमरवाड़ा 2-तहसीलदार, हरई 3-नायब तहसीलदार, अमरवाड़ा
124. चौरई	1-तहसीलदार, चौरई 2-तहसीलदार, बिछुआ 3-तहसीलदार, चांद

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (2)
125. सौंसर	1-तहसीलदार, सौंसर 2-तहसीलदार, मोहखेड 3-नायब तहसीलदार, सौंसर
126 छिन्दवाड़ा	1-तहसीलदार (शहरी), छिंदवाड़ा 2-तहसीलदार (ग्रामीण), छिंदवाड़ा 3-नायब तहसीलदार, छिंदवाड़ा
127. परासिया(अ.जा.)	1-तहसीलदार, परासिया 2-तहसीलदार, उमरेठ 3-नायब तहसीलदार, परासिया
128. पांडुर्ना (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, पांडुर्ना 2-नायब तहसीलदार, पांडुर्ना 3-नायब तहसीलदार, सांवरी (मोहखेड)
129. मुलताई	1-तहसीलदार, मुलताई 2-नायब तहसीलदार, मुलताई 3-नायब तहसीलदार, प्रभातपट्टन
130. आमला (अ.जा.)	1-तहसीलदार, आमला 2-तहसीलदार, घोडाडोंगरी 3-नायब तहसीलदार, आमला
131. बैतूल	1-तहसीलदार, बैतूल ग्रामीण 2-तहसीलदार, बैतूल नगर 3-नायब तहसीलदार, बैतूल
132. घोडाडोंगरी (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, शाहपुर 2-तहसीलदार, चिचोली 3-नायब तहसीलदार, घोडाडोंगरी
133. भैंसदेही (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, भैंसदेही 2-तहसीलदार, आठनेर 3-तहसीलदार, भीमपुर
134. टिमरनी (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, टिमरनी 2-तहसीलदार, रहटगांव 3-तहसीलदार, सिराली
135. हरदा	1-तहसीलदार, हरदा 2-तहसीलदार, खिरकिया 3-तहसीलदार, हंडिया
136. सिवनी मालवा	1-तहसीलदार, सिवनी मालवा 2-तहसीलदार, डोलरिया 3-अतिरिक्त तहसीलदार, केसला (इटारसी)
137. होशंगाबाद	1-अनुविभागीय अधिकारी, इटारसी 2-तहसीलदार, नर्मदापुरम (शहरी) 3-तहसीलदार, इटारसी
138. सोहागपुर	1-तहसीलदार, सोहागपुर 2-तहसीलदार, माखननगर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	सहायक रिटनिंग ऑफिसर (2)
139. पिपरिया (अ.जा.)	3-नायब तहसीलदार, इटारसी 1-तहसीलदार, पिपरिया 2-तहसीलदार, बनखेडी 3-नायब तहसीलदार, पिपरिया
140. उदयपुरा	1-तहसीलदार, बरेली 2-नायब तहसीलदार, उदयपुरा 3-नायब तहसीलदार, देवरी
141. भोजपुर	1-तहसीलदार, गोहरगंज 2-तहसीलदार, बाडी 3-तहसीलदार, सुल्तानपुर
142. सांची (अ.जा.)	1-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायसेन 2- तहसीलदार, गैरतगंज 3-नायब तहसीलदार, रायसेन
143. सिलवानी	1-तहसीलदार, बेगमगंज 2-तहसीलदार, सिलवानी 3-नायब तहसीलदार, बेगमगंज
144. विदिशा	1-तहसीलदार (शहरी), विदिशा 2-तहसीलदार (ग्रामीण), विदिशा 3-नायब तहसीलदार, विदिशा
145. बासौदा	1-तहसीलदार, बासौदा 2-तहसीलदार, त्योंदा 3- तहसीलदार, ग्यारसपुर
146. कुरवाई (अ.जा.)	1-तहसीलदार, कुरवाई 2-नायब तहसीलदार, कुरवाई 3-तहसीलदार, पठारी
147. सिरोंज	1-तहसीलदार, सिरोंज 2-नायब तहसीलदार, सिरोंज 3-तहसीलदार, लटेरी
148. शमशाबाद	1-तहसीलदार, नटेरन 2-नायब तहसीलदार, नटेरन 3-तहसीलदार, शमशाबाद
149. बैरसिया (अ.जा.)	1-तहसीलदार, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल 2-नायब तहसीलदार-1, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल 3-नायब तहसीलदार-2, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल
150. भोपाल उत्तर	1-तहसीलदार, नजूल वृत्त, संत हिरदाराम नगर (बैरागढ), भोपाल 2-नायब तहसीलदार-1, नजूल वृत्त, संत हिरदाराम नगर (बैरागढ), भोपाल 3-नायब तहसीलदार-2, नजूल वृत्त, संत हिरदाराम नगर (बैरागढ), भोपाल
151. नरेला	1-तहसीलदार, नजूल गोविन्दपुरा, वृत्त, भोपाल 2-नायब तहसीलदार-1, नजूल गोविन्दपुरा, वृत्त, भोपाल

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (2)
	3-नायब तहसीलदार-2, नजूल गोविन्दपुरा, वृत्त, भोपाल
152. भोपाल दक्षिण-पश्चिम	1-तहसीलदार, नजूल, टी- टी- नगर, वृत्त, भोपाल 2-नायब तहसीलदार-1, नजूल, टी- टी- नगर, वृत्त, भोपाल 3-नायब तहसीलदार-2, नजूल, टी- टी- नगर, वृत्त, भोपाल
153. भोपाल मध्य	1-तहसीलदार, नजूल शहर, वृत्त, भोपाल 2-नायब तहसीलदार-1, नजूल शहर, वृत्त, भोपाल 3-नायब तहसीलदार-2, नजूल शहर, वृत्त, भोपाल
154. गोविन्दपुरा	1-तहसीलदार, नजूल एम पी- नगर, वृत्त, भोपाल 2-नायब तहसीलदार-1, नजूल एम पी- नगर वृत्त, भोपाल 3-नायब तहसीलदार-2, नजूल एम पी- नगर वृत्त, भोपाल
155. हज़ूर	1-तहसीलदार, तहसील हज़ूर, जिला भोपाल 2-अपर तहसीलदार-1, तहसील हज़ूर, जिला भोपाल 3-नायब तहसीलदार-2, तहसील हज़ूर, जिला भोपाल
156. बुधनी	1-तहसीलदार, बुधनी 2-तहसीलदार, नसरुल्लागंज 3-नायब तहसीलदार, बुधनी
157. आष्टा (अ.जा.)	1-तहसीलदार, आष्टा 2-तहसीलदार, जाधर 3-नायब तहसीलदार, आष्टा
158. इछावर	1-तहसीलदार, इछावर 2-अपर तहसीलदार, सीहोर 3-नायब तहसीलदार, इछावर
159. सीहोर	1-तहसीलदार, सीहोर 2-तहसीलदार, श्यामपुर 3-नायब तहसीलदार, सीहोर
160. नरसिंहगढ़	1-तहसीलदार, नरसिंहगढ़ 2-नायब तहसीलदार, नरसिंहगढ़ 3-नायब तहसीलदार, कुरावर नरसिंहगढ़
161. ब्यावरा	1-तहसीलदार, ब्यावरा 2-तहसीलदार, सुठालिया 3-नायब तहसीलदार, ब्यावरा
162. राजगढ़	1-तहसीलदार, राजगढ़ 2-तहसीलदार, खुजनेर 3-नायब तहसीलदार, राजगढ़
163. खिलचीपुर	1-तहसीलदार, खिलचीपुर 2-तहसीलदार, जीरापुर 3-नायब तहसीलदार, भोजपुर
164. सारंगपुर (अ.जा.)	1-तहसीलदार, सारंगपुर 2-तहसीलदार, पचोर 3-नायब तहसीलदार, सारंगपुर
165. सुसनेर	1-तहसीलदार, सुसनेर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (2)
	2-तहसीलदार, नलखेडा 3-नायब तहसीलदार, सुसनेर
166. आगर (अजा)	1-तहसीलदार, आगर 2-तहसीलदार, बडौद 3-नायब तहसीलदार, आगर
167. शाजापुर	1-तहसीलदार, शाजापुर 2-तहसीलदार, मो. बडौदिया 3-नायब तहसीलदार, शाजापुर
168. शुजालपुर	1-तहसीलदार, शुजालपुर 2-तहसीलदार, गुलाना 3-तहसीलदार, पोलायकला
169. कालापीपल	1-तहसीलदार, कालापीपल 2-तहसीलदार, अयन्तीपुर बडौदिया 3-नायब तहसीलदार, कालापीपल
170. सोनकच्छ (अ.जा.)	1-तहसीलदार, सोनकच्छ 2-तहसीलदार, टोंकखुर्द 3-नायब तहसीलदार, सोनकच्छ
171. देवास	1-तहसीलदार (शहरी), देवास 2-नायब तहसीलदार-1, देवास 3-नायब तहसीलदार-2, देवास
172. हाटपिपल्या	1-तहसीलदार, हाटपिपल्या 2-तहसीलदार (ग्रामीण), देवास 3-नायब तहसीलदार, हाटपिपल्या
173. खातेगांव	1-तहसीलदार, खातेगांव 2-तहसीलदार, कन्चौद 3-नायब तहसीलदार, खातेगांव
174. बागली (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, बागली 2-तहसीलदार, सतवास 3-तहसीलदार, उदयनगर
175. मांधाता	1-तहसीलदार, पुनासा 2-नायब तहसीलदार, मूंदी 3-नायब तहसीलदार, मोहना
176. हरसूद (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, हरसूद 2-नायब तहसीलदार, हरसूद 3-नायब तहसीलदार, खालवा
177. खण्डवा (अ.जा.)	1-तहसीलदार, खण्डवा 2-नायब तहसीलदार-1, खण्डवा 3-नायब तहसीलदार-2, खण्डवा
178. पंधाना (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, पंधाना 2-नायब तहसीलदार-3, खण्डवा 3-तहसीलदार, छैगांवमाखन

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)
179.नेपानगर (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, नेपानगर 2-तहसीलदार, खकनार 3-नायब तहसीलदार, तुकईथड तहसील, खकनार
180.बुरहानपुर	1-तहसीलदार, बुरहानपुर 2-तहसीलदार, बुरहानपुर (नगर) 3-नायब तहसीलदार, बुरहानपुर
181. भीकनगांव (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, तहसील भीकनगांव 2-तहसीलदार, तहसील झिरन्या 3-नायब तहसीलदार, तहसील झिरन्या
182. बड़वाहा	1-तहसीलदार, तहसील बड़वाहा 2-तहसीलदार, तहसील सनावद 3-नायब तहसीलदार, तहसील बड़वाहा
183. महेश्वर (अ.जा.)	1-तहसीलदार, तहसील महेश्वर 2-नायब तहसीलदार, तहसील महेश्वर 3-नायब तहसीलदार, तहसील मण्डलेश्वर
184. कसरावद	1-तहसीलदार, तहसील कसरावद 2-नायब तहसीलदार, तहसील कसरावद 3-नायब तहसीलदार, तहसील कसरावद
185. खरगौन	1-तहसीलदार, तहसील खरगौन 2-तहसीलदार, तहसील गोगांव 3-नायब तहसीलदार, तहसील खरगौन
186. भगवानपुरा (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, तहसील भगवानपुरा 2-तहसीलदार, तहसील सैगांव 3-नायब तहसीलदार, तहसील भगवानपुरा
187. सैंधवा (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, सैंधवा 2-नायब तहसीलदार, सैंधवा 3-तहसीलदार, वरला
188. राजपुर (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, राजपुर 2-तहसीलदार, ठीकरी 3-तहसीलदार अंजड़
189. पानसेमल (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, पानसेमल 2-तहसीलदार, नियाली 3-नायब तहसीलदार, पानसेमल
190. बड़वानी (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, बड़वानी 2-तहसीलदार, पाटी 3-नायब तहसीलदार, बड़वानी
191. अलीराजपुर (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, तहसील अलीराजपुर 2-तहसीलदार, तहसील सोण्डवा 3-नायब तहसीलदार, अलीराजपुर
192. जोबट (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, जोबट 2-तहसीलदार, चन्द्र शेखर आज्ञाद नगर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (2)
	3-नायब तहसीलदार, तहसील जोबट
193. झाबुआ (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, झाबुआ 2-तहसीलदार, रानापुर 3-नायब तहसीलदार, झाबुआ
194. थांदला (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, थांदला 2-तहसीलदार, मेघनगर 3-नायब तहसीलदार, थांदला
195. पेटलावद (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, पेटलावद 2-तहसीलदार, रामा 3-नायब तहसीलदार, पेटलावद
196. सरदारपुर (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, सरदारपुर 2-नायब तहसीलदार-1, सरदारपुर 3-नायब तहसीलदार-2, सरदारपुर
197. गंधवानी (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, गंधवानी 2-नायब तहसीलदार-1, कुक्षी 3-नायब तहसीलदार-1, धार
198. कुक्षी (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, कुक्षी 2-अतिरिक्त तहसीलदार, कुक्षी 3-नायब तहसीलदार, कुक्षी
199. मनावर (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, मनावर 2-नायब तहसीलदार-1, मनावर 3-नायब तहसीलदार-2, मनावर
200. धरमपुरी (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, धरमपुरी 2-नायब तहसीलदार वृत्त- नालछा, तहसील पीथमपुर 3-नायब तहसीलदार-1, धरमपुरी
201. धार	1-तहसीलदार, धार 2-अतिरिक्त तहसीलदार, धार 3-नायब तहसीलदार-3, धार
202. बदनावर	1-तहसीलदार, बदनावर 2-नायब तहसीलदार-2, बदनावर 3-नायब तहसीलदार, बदनावर
203. देपालपुर	1-तहसीलदार, देपालपुर 2-तहसीलदार, हातोद 3-नायब तहसीलदार, बेटमा, तहसील देपालपुर
204. इन्दौर-1	1-तहसीलदार, मल्हारगंज 2-नायब तहसीलदार-1, मल्हारगंज 3-नायब तहसीलदार-2, मल्हारगंज
205. इन्दौर-2	1-तहसीलदार, कनाडिया 2- नायब तहसीलदार, कनाडिया 3-अतिरिक्त तहसीलदार, गौतमपुरा, तहसील देपालपुर
206 इन्दौर-3	1-तहसीलदार, जूनी इन्दौर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)
	2-नायब तहसीलदार-1, जूनी इन्दौर 3-नायब तहसीलदार-2, जूनी इन्दौर
207. इन्दौर-4	1-तहसीलदार, खुडैल 2-नायब तहसीलदार, खुडैल 3-सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख-2, इंदौर
208. इन्दौर-5	1-तहसीलदार, भिचौली हप्सी 2-नायब तहसीलदार, भिचौली हप्सी 3-सहायक अधीक्षक रा. नि. प्रक्षिण शाला इंदौर
209. डॉ अम्बेडकरनगर- महू	1-तहसीलदार, डॉ अम्बेडकरनगर (महू) 2-तहसीलदार, डॉ अम्बेडकरनगर (महू) 3-नायब तहसीलदार, मानपुर
210 राऊ	1-तहसीलदार, राऊ 2-नायब तहसीलदार, राऊ 3-सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख-3, इन्दौर
211. सांवेर (अ.जा.)	1-तहसीलदार, सांवेर 2-नायब तहसीलदार, सांवेर 3-नायब तहसीलदार, क्षिप्रा
212. नागदा-खाचरोद	1-तहसीलदार, खाचरोद 2-तहसीलदार, नागदा 3-नायब तहसीलदार, खाचरोद
213. महिदपुर	1-तहसीलदार, महिदपुर 2-तहसीलदार, झारडा 3-नायब तहसीलदार, महिदपुर
214. तराना (अ.जा.)	1-तहसीलदार, तराना 2-तहसीलदार, माकडोन 3-नायब तहसीलदार, तराना
215. घटिया (अ.जा.)	1-तहसीलदार, घटिया 2-नायब तहसीलदार, पानबिहार 3-नायब तहसीलदार, ऊन्हेल
216. उज्जैन उत्तर	1-तहसीलदार, उज्जैन नगर 2-तहसीलदार, कोठीमहल 3-नायब तहसीलदार, उज्जैन नगर
217. उज्जैन दक्षिण	1-तहसीलदार, उज्जैन ग्रामीण 2-नायब तहसीलदार, उज्जैन ग्रामीण 3-नायब तहसीलदार, कोठीमहल
218. बड़नगर	1-तहसीलदार, बड़नगर 2-नायब तहसीलदार, बड़नगर 3-नायब तहसीलदार, इंगोरिया
219. रतलाम ग्रामीण(अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, रतलाम ग्रामीण 2-नायब तहसीलदार - 1, रतलाम ग्रामीण 3-नायब तहसीलदार - 2, रतलाम ग्रामीण

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)
220. रतलाम सिटी	1-तहसीलदार, रतलाम सिटी 2-नायब तहसीलदार - 1, रतलाम सिटी 3-नायब तहसीलदार - 2, रतलाम सिटी
221. सैलाना (अ.ज.जा.)	1-तहसीलदार, सैलाना 2-तहसीलदार, बाजना 3-तहसीलदार, रावटी
222. जावरा	1-तहसीलदार, जावरा 2-तहसीलदार, पिपलौदा 3-नायब तहसीलदार, काखेडा
223. आलोट (अ.जा.)	1-तहसीलदार, आलोट 2-तहसीलदार, ताल 3-नायब तहसीलदार, आलोट
224. मंदसौर	1-तहसीलदार, मन्दसौर 2-नायब तहसीलदार-1, मन्दसौर 3-नायब तहसीलदार-2, मन्दसौर
225. मल्हारगढ़ (अ.जा.)	1-तहसीलदार, मल्हारगढ़ 2-नायब तहसीलदार, मल्हारगढ़ 3-नायब तहसीलदार, संजीत
226. सुवासरा	1-तहसीलदार, सुवासरा 2-नायब तहसीलदार, सीतामऊ 3-नायब तहसीलदार, सुवासरा
227. गरोठ	1-तहसीलदार, गरोठ 2-नायब तहसीलदार, गरोठ 3-नायब तहसीलदार, भानपुरा
228. मनासा	1-तहसीलदार, मनासा 2-नायब तहसीलदार, मनासा 3-नायब तहसीलदार, रामपुरा
229. नीमच	1-तहसीलदार, नीमच 2-नायब तहसीलदार, नीमच 3-नायब तहसीलदार, जीरन
230. जावद	1-तहसीलदार, जावद 2-नायब तहसीलदार, सिंगोली 3-नायब तहसीलदार, जावद

आदेश से,
हस्ता. / -
(अमित कुमार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated: 19th October 2023-27 Asvina, (Saka) 1945**NOTIFICATION**

No. 434-MP-LA-2023 (1).--In exercise of powers conferred by Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notification No. 434-MP-LA-2018 (1) dated 20th September 2018, the Election Commission hereby designates, the Officer of the Government as specified in column (2) of the Table below as the Assistant Returning Officer (s) to assist the Returning Officer of the Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, as specified in column (1) of the said Table against such Constituency, in performance of the functions of such Returning Officer :-

TABLE

No. & Name of Assembly Constituency (1)	Assistant Returning Officer (2)
1. Sheopur	1-Tehsildar, Sheopur 2-Tehsildar, Baroda 3-Nayab Tehsildar, Manpur
2. Vijaypur	1-Tehsildar, Vijaypur 2-Tehsildar, Karahal 3-Tehsildar, Veerpur
3. Sabalgarh	1-Tehsildar, sabalgarh 2-Nayab Tehsildar-1, sabalgarh 3-Nayab Tehsildar-1, Kailaras
4. Joura	1-Tehsildar, Kailaras 2-Nayab Tehsildar-1, Joura 3-Nayab Tehsildar-2, Joura
5. Sumawali	1-Tehsildar, joura 2-Tehsildar, Morena Rural 3-Nayab Tehsildar-1, Morena Urban
6. Morena	1-Tehsildar, Morena Urban 2-Tehsildar, Banmore 3-Nayab Tehsildar, Banmore
7. Dimani	1-Tehsildar, Ambah 2-Nayab Tehsildar-2, Morena Rural 3-Nayab Tehsildar-2, Ambah
8. Ambah(SC)	1-Tehsildar, Porsa 2-Nayab Tehsildar-1, Ambah 3-Nayab Tehsildar, Porsa
9. Ater	1-Tehsildar, Ater 2-Nayab Tehsildar, Surpura 3-Nayab Tehsildar, Peepari
10. Bhind	1-Tehsildar Urban, Bhind 2-Tehsildar Rural, Bhind 3-Nayab Tehsildar, Bhind

No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
11.Lahar	1-Tehsildar, Lahar 2- Tehsildar, Mihona 3-Nayab Tehsildar ,Lahar
12.Mehgaon	1-Tehsildar, Mehgaon 2- Tehsildar , Gormi 3-Nayab Tehsildar , Mehgaon
13.Gohad(SC)	1-Tehsildar, Gohad 2-Tehsildar , Mau 3-Nayab Tehsildar , Gohad
14.Gwalior Rural	1-Tehsildar, Tansen 2-Nayab Tehsildar, Morar 3-Nayab Tehsildar, Hastinapur
15.Gwalior	1- Tehsildar, Morar 2-Nayab Tehsildar, Purani Chawani 3-Nayab Tehsildar, Bahodapur
16.Gwalior East	1-Tehsildar, City Center 2-Nayab Tehsildar, Mehra 3-Nayab Tehsildar, Utila
17.Gwalior South	1-Nayab Tehsildar, Lashkar-1 2-Nayab Tehsildar, Lashkar-2 3- Superintendent, Land-Record, Gwalior
18.Bhitarwar	1-Tehsildar, Bhitarwar 2-Tehsildar, Ghatigaon 3- Nayab Tehsildar, Chhinor
19.Dabra (SC)	1-Tehsildar, Dabra 2-Nayab Tehsildar , Dabra - 1 3-Nayab Tehsildar, Dabra - 2
20.Sewda	1-Tehsildar, Indargarh 2-Nayab Tehsildar-1, Sewda 3-Nayab Tehsildar-2, Sewda
21.Bhander (SC)	1-Tehsildar Bhander 2-Nayab Tehsildar-1, Bhader 3-Nayab Tehsildar-2, Bhader
22.Datia	1-Tehsildar, Datia 2-Nayab Tehsildar-1, Datia 3-Nayab Tehsildar-2, Datia
23.Karera (SC)	1-Tehsildar, Karera 2-Nayab Tehsildar, Karera 3-Nayab Tehsildar, Narwar
24.Pohari	1-Tehsildar, Pohri 2-Nayab Tehsildar, Pohri 3-Nayab Tehsildar, Bairad
25.Shivpuri	1-Tehsildar, Shivpuri 2-Nayab Tehsildar, Shivpuri 3-Nayab Tehsildar, Khod (Pichhore)
26.Pichhore	1-Tehsildar, pichhore 2-Nayab Tehsildar, Pichhore 3-Tehsildar, Khaniyadhana

No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
27.Kolaras	1-Tehsildar, Kolaras 2-Nayab Tehsildar, Kolaras 3-Nayab Tehsildar, Badarwas
28.Bamori	1-Tehsildar, Bamori 2-Nayab Tehsildar, Circle Fatehgarh, Tehsil Bamori 3-Nayab Tehsildar, Circle Umri, Tehsil Guna (Rural)
29.Guna (SC)	1-Tehsildar, Guna (Rural) 2-Tehsildar, Guna (Urban) 3-Nayab Tehsildar, Guna (Urban)
30.Chachoura	1-Tehsildar, Chachoda 2-Tehsildar, Kumbhraj 3- Nayab Tehsildar, Madhusudangarh
31.Raghogarh	1-Tehsildar, Raghogarh 2-Tehsildar, Madhusudangarh 3- Tehsildar, Aron
32.Ashok Nagar (SC)	1-Tehsildar, Ashoknagar 2-Nayab Tehsildar, Ashoknagar 3-Tehsildar, shadhora
33.Chanderi	1-Tehsildar, Chanderi 2- Tehsildar, Isagarh 3- Tehsildar, Naisaray
34.Mungaoli	1-Tehsildar, Mungaoli 2-Tehsildar, Bahadurpur 3-Tehsildar, Piprai
35.Bina (SC)	1-Tehsildar, Bina 2-Nayab Tehsildar , Bina 3-Nayab Tehsildar , Bina
36.Khurai	1-Tehsildar, Khurai 2-Tehsildar, Malhone 3-Nayab Tehsildar, Khurai
37.Surkhi	1-Tehsildar, Rahatgarh 2-Tehsildar, Jaisinagar 3-Nayab Tehsildar, Rahatgarh
38.Deori	1-Tehsildar, Deori 2-Tehsildar, Kesli 3-Nayab Tehsildar, Deori
39.Rehli	1-Tehsildar, Rehli 2-Tehsildar, Garahkota 3-Nayab Tehsildar, Rehli
40.Naryoli (SC)	1-Tehsildar, Sagar (Rural) 2-Nayab Tehsildar, Naryawali 3-Nayab Tehsildar, Sagar (Rural)
41.Sagar	1-Tehsildar (Urban) , Sagar 2- Superintendent Land Record, Sagar 3- Nayab Tehsildar, Sagar (Urban)
42.Banda	1-Tehsildar, Banda 2-Tehsildar, Shahgarh 3-Nayab Tehsildar, Banda

No. & Name of Assembly Constituency (1)	Assistant Returning Officer (2)
43.Tikamgarh	1-Tehsildar, Tikamgarh 2-Tehsildar, Badagaon 3-Nayab Tehsildar, Samarra
44.Jatara (SC)	1-Tehsildar, Jatara 2-Tehsildar, Lidhora 3-Nayab Tehsildar, Barana
45.Prithvipur	1-Tehsildar, Prithvipur 2-Tehsildar, Mohangarh 3-Nayab Tehsildar, Jauron
46.Niwari	1-Tehsildar, Niwari 2-Tehsildar, Orchha 3-Nayab Tehsildar, Niwari
47.Khargapur	1-Tehsildar, Palera 2-Tehsildar, Khargapur 3-Tehsildar, Baldevgarh
48.Maharajpur	1-Tehsildar, Naugaon 2-Nayab Tehsildar, Naugaon 3-Tehsildar, Maharajpur
49.Chandla (SC)	1-Tehsildar, Lawkushnagar 2-Tehsildar, Chandala 3-Tehsildar, Gorihar
50.Rajnagar	1-Tehsildar, Rajnagar 2-Nayab Tehsildar, Rajnagar 3-Nayab Tehsildar, Chandranagar
51.Chhatarpur	1-Tehsildar, Chhatarpur (City) 2-Tehsildar, Chhatarpur (Rural) 3-Nayab Tehsildar, Chhatarpur
52.Bijawar	1-Tehsildar, Bijawar 2-Nayab Tehsildar, Bijawar 3-Nayab Tehsildar, Dewara
53.Malhara	1-Tehsildar, Badamlehra 2-Tehsildar, Buxwaha, 3-Tehsildar, Ghuwara
54.Pathariya	1-Tehsildar, Pathariya 2-Tehsildar, Batiyagarh 3-Nayab Tehsildar, Pathariya
55.Damoh	1-Tehsildar, Damoh 2-Tehsildar, Damyantipuram, Damoh 3-Nayab Tehsildar, Damoh
56.Jabera	1-Tehsildar, Tendukhera 2-Tehsildar, Jabera 3-Nayab Tehsildar, Banwar
57.Hatta (SC)	1-Tehsildar, Hatta 2-Nayab Tehsildar, Patara 3-Nayab Tehsildar, Hatta
58.Pawai	1-Tehsildar, Pawai 2-Tehsildar, Shahnagar 3-Tehsildar, Simariya

No. & Name of Assembly Constituency (1)	Assistant Returning Officer (2)
59.Gunnaor (SC)	1-Tehsildar, Gunnour 2-Tehsildar, Devendranagar 3-Tehsildar, Amanganj
60.Panna	1-Tehsildar, Panna 2-Tehsildar, Ajaygarh 3-Nayab Tehsildar, Panna
61.Chitrakoot	1- Tehsildar, Manjhawan 2-Nayab Tehsildar, Birsinghpur 3-Nayab Tehsildar, Manjhawan
62.Raigaon (SC)	1-Tehsildar, Kothi 2-Nayab Tehsildar-1, Raghurajnaragar 3-Nayab Tehsildar, Nagod
63.Satna	1-Tehsildar, Raghurajnaragar 2-Nayab Tehsildar-2, Raghurajnaragar 3-Nayab Tehsildar-3, Raghurajnaragar
64.Nagod	1-Tehsildar, Nagod 2-Nayab Tehsildar, Nagod 3-Nayab Tehsildar, Uchehra
65.Maihar	1-Tehsildar, Maihar 2-Nayab Tehsildar-1, Maihar 3-Nayab Tehsildar-2, Maihar
66.Amarpatan	1-Tehsildar, Amarpatan 2-Nayab Tehsildar, Amarpatan 3-Tehsildar, Ramnagar
67.Rampur-Baghelan	1-Tehsildar, Rampur Baghelan 2-Nayab Tehsildar-1, Rampur Baghelan 3-Nayab Tehsildar Kotar
68.Sirmour	1- Assistant Collector, Rewa 2- Tehsildar, Sirmour 3-Tehsildar, Jawa
69.Semariya	1-Tehsildar, Semariya 2-Nayab Tehsildar, Semariya 3-Chief Executive Officer, Janpad Panchyat Sirmour
70.Teonthar	1-Tehsildar, Teonthar 2-Nayab Tehsildar, Teonthar 3-Chief Executive Officer, Janpad Panchyat Teonthar
71.Mauganj	1-Tehsildar, Hanumana 2-Nayab Tehsildar, Hanumana 3-Chief Executive Officer, Janpad Panchyat Hanumana
72.Deotalab	1-Tehsildar, Mauganj 2-Nayab Tehsildar, Naigarhi 3-Chief Executive Officer, Janpad Panchyat Naigarhi
73.Mangawan (SC)	1-Tehsildar, Mangawan 2-Nayab Tehsildar, Mangawan 3-Chief Executive Officer, Janpad Panchyat Gangeo
74.Rewa	1-Tehsildar, Huzur 2-Nayab Tehsildar, Huzur-1 3-Nayab Tehsildar Huzur-2

No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
75.Gurh	1-Tehsildar, Gurh 2- Tehsildar, Raipur Karchuliyani 3-Chief Executive Officer, Janpad Panchyat Raipur Karchuliyani
76.Churhat	1-Tehsildar, churhat 2- Tehsildar, Rampur Naikin 3-Nayab Tehsildar, Churhat
77.Sidhi	1-Tehsildar, Gopat Banas 2-Nayab Tehsildar, Gopat Banas 3-Nayab Tehsildar(Semariya), Gopat Banas
78.Sihawal	1-Tehsildar, Sihawal 2-Tehsildar, Bahari 3-Nayab Tehsildar, Sihawal
79.Chitrangi (ST)	1-Tehsildar, Chitrangi 2-Nayab Tehsildar-1, Chitrangi 3-Nayab Tehsildar-2, Chitrangi
80.Singrauli	1-Tehsildar, Singrauli (Urban) 2-Tehsildar, Singrauli 3-Nayab Tehsildar, Singrauli
81.Devsar (SC)	1-Tehsildar, Deosar 2- Tehsildar, Sarai 3- Tehsildar, Mada
82.Dhauhani (ST)	1-Tehsildar, Majhouli 2-Tehsildar, Kusmi 3-Nayab Tehsildar, Majhouli
83. Beohari (ST)	1-Tehsildar, Beohari 2- Nayab Tehsildar, Jaisinghnagar 3-Nayab Tehsildar, Beohari
84.Jaisingnagar (ST)	1-Tehsildar, Sohagpur 2- Nayab Tehsildar, Gohparu 3-Nayab Tehsildar, Sohagpur
85.Jaitpur (ST)	1-Tehsildar, Jaitpur 2- Nayab Tehsildar, Budhar 3-Nayab Tehsildar, Jaitpur
86.Kotma (ST)	1-Tehsildar, Kotma 2-Nayab Tehsildar-1, Kotma 3-Nayab Tehsildar-2, Kotma
87.Anuppur (ST)	1-Tehsildar, Anuppur 2- Nayab Tehsildar-1, Anuppur 3- Nayab Tehsildar-2, Anuppur
88.Pushprajgarh (ST)	1-Tehsildar, Pushprajgarh 2- Nayab Tehsildar-1, Pushprajgarh 3-Nayab Tehsildar-2, Pushprajgarh
89.Bandhavgarh (ST)	1-Tehsildar, Bandhavgarh 2-Tehsildar, Chandia 3-Tehsildar, Nowrozabad
90.Manpur (ST)	1-Tehsildar, Manpur 2-Tehsildar, Pali 3-Nayab Tehsildar, Tala

No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
91.Barwara (ST)	1-Tehsildar, Barwara 2-Tehsildar, Dhimarkhera 3-Nayab Tehsildar, Umariyapan
92.Vijayraghavgarh	1-Tehsildar, VijayRaghavgarh 2-Tehsildar, Barahi 3-Nayab Tehsildar, Sinagauri
93.Murwara	1-Tehsildar, Katni 2-Nayab Tehsildar, Murwara 3-Nayab Tehsildar, Pahari
94.Bahoriband	1-Tehsildar, Rithi 2- Tehsildar, Bahoriband 3-Nayab Tehsildar, Slimanabad
95.Patan	1-Tehsildar, Patan, 2-Tehsildar, Majholi 3-Nayab Tehsildar, Patan
96.Bargi	1-Tehsildar, Jabalpur (Rural) 2-Tehsildar, Shahpura, Jabalpur 3-Nayab Tehsildar, Bargi , Jabalpur
97.Jabalpur Purba (SC)	1-Tehsildar, Adhartal, Jabalpur 2-Nayab Tehsildar, Adhartal, Jabalpur 3-Nayab Tehsildar (Nazul), Jabalpur
98.Jabalpur Uttar	1-Nayab Tehsildar,Adhartal, Jabalpur 2-Assistant Superintedent Land Record Jabalpur 3- Nayab Tehsildar, Nazul, Collectorate Jabalpur
99.Jabalpur Cantt	1-Tehsildar, Ranjhi, Jabalpur 2-Nayab Tehsildar, Ranjhi, Jabalpur 3-Nayab Tehsildar, Panagar , Jabalpur
100.Jabalpur Paschim	1-Tehsildar, Gorakhpur, Jabalpur 2-Nayab Tehsildar, Gorakhpur, Jabalpur 3-Nayab Tehsildar, Gorakhpur, Jabalpur
101.Panagar	1-Tehsildar, Panagar, Jabalpur 2-Nayab Tehsildar, Panagar, Jabalpur 3-Nayab Tehsildar, Barela , Jabalpur
102.Sihora (ST)	1-Tehsildar, Sihora, Jabalpur 2-Tehsildar, Kundam, Jabalpur 3-Nayab Tehsildar, Schora, Jabalpur
103.Shahpura (ST)	1-Tehsildar, Shahpura 2-Nayab Tehsildar, Shahpura 3-Nayab Tehsildar, Amarpur
104.Dindori (ST)	1-Tehsildar, Dindori 2-Nayab Tehsildar, Bajag 3-Nayab Tehsildar , Samnapur
105.Bichhiya (ST)	1- Sub Divisional Officer (Revenue) , Ghughri 2- Tehsildar, Bichhiya 3-Nayab Tehsildar, Mawai
106.Niwas (ST)	1-Deputy Collector Mandla-I 2- Tehsildar, Niwas 3-Nayab Tehsildar, Bijadandi

No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
107.Mandla (ST)	1-Tehsildar, Mandala 2-Nayab Tehsildar, Bamhni 3-Nayab Tehsildar, Chiraidongari
108.Baihar (ST)	1-Tehsildar Baihar 2-Nayab Tehsildar, Baihar 3-Tehsildar, Birsa
109.Lanji	1-Tehsildar, Lanji 2-Nayab Tehsildar, Lanji 3-Tehsildar, Kirnapur
110.Paraswada	1-Tehsildar, Paraswara 2-Nayab Tehsildar-1, Lamta Balaghat 3-Assistant Supritendent, Land Record , Balaghat"
111.Balaghat	1-Tehsildar, Balaghat 2-Nayab Tehsildar-1, Hatta, Balaghat 3-Tehsildar, Lalbarra
112.Waraseoni	1-Tehsildar, Waraseoni 2-Nayab Tehsildar, Waraseoni 3-Tehsildar, Khairlanji
113.Katangi	1-Tehsildar, Katangi 2-Nayab Tehsildar, Katangi 3-Tehsildar, Tirodi
114.Barghat (ST)	1-Sub Divisional Officer (Revenue), Kurai 2-Tehsildar, Barghat 3- Tehsildar, Kurai
115.Seoni	1-Tehsildar, Seoni 2-Tehsildar, Chhapara 3-Nayab Tehsildar, Seoni
116.Keolari	1-Tehsildar, Keolari 2-Tehsildar, Dhanora 3-Nayab Tehsildar, Keolari
117.Lakhnadon (ST)	1-Sub Divisional Officer (Revenue), Ghansor 2-Tehsildar, Lakhnadon 3-Tehsildar, Ghansor
118.Gotegaon (SC)	1-Tehsildar, Gotegaon 2-Nayab Tehsildar-1, Gotegaon 3-Sub Divisional Officer (Revenue), Gotegaon
119. Narsingpur	1-Tehsildar, Narsinghpur 2-Tehsildar , Kareli 3-Nayab Tehsildar, Narsinghpur
120.Tendukheda	1-Tehsildar, Tendukheda 2-Additional Tehsildar, Gadarwara 3-Nayab Tehsildar, Tendukheda
121.Gadarwara	1-Tehsildar, Gadarwara 2-Nayab Tehsildar-1, Gadarwara 3-Nayab Tehsildar-2, Gadarwara
122.Junnardeo (ST)	1-Tehsildar, Junnardeo 2-Tehsildar, Tamiya 3-Nayab Tehsildar, Junnardeo

No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
123.Amarwara (ST)	1-Tehsildar, Amarwara 2-Tehsildar, Harrai 3-Nayab Tehsildar, Amarwara
124.Churai	1-Tehsildar, Chourai 2-Tehsildar, Bichhua 3-Tehsildar, Chand
125.Saunsar	1-Tehsildar, Saunsar 2-Tehsildar, Mohkhed 3-Nayab Tehsildar, Saunsar
126.Chhindwara	1-Tehsildar (Urban), Chhindwara 2-Tehsildar (Rural), Chhindwara 3-Nayab Tehsildar, Chhindwara
127.Parasia (SC)	1-Tehsildar, Parasia 2-Tehsildar, Umreth 3-Nayab Tehsildar, Parasia
128.Pandhurna (ST)	1-Tehsildar, Pandhurana 2-Nayab Tehsildar, Pandhurana 3-Nayab Tehsildar, Saowari (Mohkhed)
129.Multai	1-Tehsildar, Multai 2-Nayab Tehsildar, Multai 3-Nayab Tehsildar , PrabhatPattan
130.Amla (SC)	1-Tehsildar, Amla 2-Tehsildar, Ghodadongri 3-Nayab Tehsildar, Amla
131.Betul	1-Tehsildar, Betul Rural 2-Tehsildar, Betul City 3-Nayab Tehsildar , Betul
132.Ghoradongri (ST)	1-Tehsildar, Shahpur 2-Tehsildar, Chicholi 3- Nayab Tehsildar, Ghoradongri
133.Bhainsdehi (ST)	1- Tehsildar, Bhainsdehi 2-Tehsildar, Athner 3- Tehsildar, Bhimpur
134.Timarni (ST)	1- Tehsildar, Timarani 2- Tehsildar, Rahatgaon 3- Tehsildar, Sirali
135.Harda	1-Tehsildar, Harda 2-Tehsildar, Kharikiya 3- Tehsildar, Handiya
136.Seoni-Malwa	1-Tehsildar, seoni-Malwa 2-Tehsildar, Dolriya 3-Additional Tehsildar, Kesla (Itarsi)
137.Hoshangabad	1-Sub Divisional Officer, Itarasi 2-Tehsildar, Narmadapuram (Urban) 3-Tehsildar, Itarasi
138.Sohagpur	1-Tehsildar, Sohagpur 2-Tehsildar, MakhanNagar 3-Nayab Tehsildar, Itarsi

No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
139.Pipariya (SC)	1-Tehsildar, Pipariya 2-Tehsildar, Bankhed 3-Nayab Tehsildar, Pipariya
140.Udaipura	1-Tehsildar, Bareli 2-Nayab Tehsildar, Udaypura 3-Nayab Tehsildar, Devri
141.Bhojpur	1-Tehsildar, Goharganj 2-Tehsildar, Badi 3-Tehsildar, Sultanpur
142.Sanchi (SC)	1-Sub Divisional Officer (Revenue) Raisen 2-Tehsildar, Gairatganj 3-Nayab Tehsildar, Raisen
143.Silwani	1-Tehsildar, Begamganj 2-Tehsildar, Silwani 3-Nayab Tehsildar, Begamganj
144.Vidisha	1-Tehsildar (Urban) , Vidisha 2-Tehsildar (Rural) , Vidisha 3-Nayab Tehsildar, Vidisha
145.Basoda	1-Tehsildar, Basoda 2-Tehsildar, Tyonda 3-Tehsildar, Gyaraspur
146.Kurwai (SC)	1-Tehsildar, Kurwai 2-Nayab Tehsildar, Kurwai 3-Tehsildar, Pathari
147.Sironj	1-Tehsildar, Sironj 2-Nayab Tehsildar , Sironj 3-Tehsildar, Lateri
148.Shamshabad	1-Tehsildar, Nateran 2-Nayab Tehsildar, Nateran 3-Tehsildar, Shamshabad
149.Berasia (SC)	1-Tehsildar, Tehsil Berasia, District Bhopal 2-Nayab Tehsildar-1, Tehsil Berasia, District Bhopal 3-Nayab Tehsildar-2, Tehsil Berasia, District Bhopal
150.Bhopal Uttar	1-Tehsildar, Nazul Circle, Sant Hirdaram nagar (Bairagarh), Bhopal 2-Nayab Tehsildar-1 , Nazul Circle, Sant Hirdaram nagar (Bairagarh) Bhopal 3-Nayab Tehsildar-2 , Nazul Circle, Sant Hirdaram nagar (Bairagarh) Bhopal
151.Narela	1-Tehsildar, Nazul Govindpura, Circle, Bhopal 2-Nayab Tehsildar-1, Nazul Govindpura, Circle, Bhopal 3-Nayab Tehsildar-2, Nazul Govindpura, Circle, Bhopal
152.Bhopal Dakshin-Paschim	1-Tehsildar, Nazul, T-T-Nagar, Circle, Bhopal 2-Nayab Tehsildar-1, Nazul, T-T-Nagar, Circle, Bhopal 3-Nayab Tehsildar-2, Nazul, T-T-Nagar, Circle, Bhopal
153.Bhopal Madhya	1-Tehsildar, Nazul City, Circle, Bhopal 2-Nayab Tehsildar-1, Nazul City, Circle, Bhopal 3-Nayab Tehsildar-2, Nazul City, Circle, Bhopal

No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
154.Govindpura	1-Tehsildar, Nazul M-P- Nagar, Circle, Bhopal 2-Nayab Tehsildar-1, Nazul M-P- Nagar, Circle, Bhopal 3-Nayab Tehsildar-2, Nazul M-P- Nagar, Circle, Bhopal
155.Huzur	1-Tehsildar, Tahsil Huzur, District Bhopal 2-Additional Tehsildar-1, Tahsil Huzur, District Bhopal 3-Nayab Tehsildar-2, Tahsil Huzur, District Bhopal
156.Budhni	1-Tehsildar, Budhni 2-Tehsildar, Nasrullahganj 3-Nayab Tehsildar, Budhni
157.Ashta(SC)	1-Tehsildar, Ashta 2-Tehsildar, Jawar 3-Nayab Tehsildar, Ashta
158.Ichhawar	1-Tehsildar, Ichhawar 2-Additional Tehsildar, Sehore 3-Nayab Tehsildar, Ichhawar
159.Sehore	1-Tehsildar, Sehore 2-Tehsildar, Shyampur 3-Nayab Tehsildar, Sehore
160.Narsinghgarh	1-Tehsildar , Narsinghgarh 2-Nayab Tehsildar , Narsinghgarh 3-Nayab Tehsildar , Kurawar Narsinghgarh
161.Biaora	1-Tehsildar, Biaora 2-Tehsildar, Suthaliya 3-Nayab Tehsildar, Biaora
162.Rajgarh	1-Tehsildar, Rajgarh 2-Tehsildar, Khujner 3-Nayab Tehsildar, Rajgarh
163.Khilchipur	1-Tehsildar, Khilchipur 2- Tehsildar, Zirapur 3-Nayab Tehsildar, Bhojpur
164.Sarangpur(SC)	1-Tehsildar, Sarangpur 2-Tehsildar, Pachor 3-Nayab Tehsildar, Sarangpur
165.Susner	1-Tehsildar, Susner 2-Tehsildar, Nalkheda 3-Nayab Tehsildar, Susner
166.Agar(SC)	1-Tehsildar, Agar 2-Tehsildar, Barod 3-Nayab Tehsildar, Agar
167.Shajapur	1-Tehsildar, Shajapur 2-Tehsildar, Mo. Barodiya 3-Nayab Tehsildar, Shajapur
168.Shujalpur	1-Tehsildar, Shujalpur 2-Tehsildar, Gulana 3-Tehsildar, Polaykalan
169.Kalapipal	1-Tehsildar, Kalapipal 2-Tehsildar, Avantipur Barodiya 3-Nayab Tehsildar, Kalapipal

No. & Name of Assembly Constituency (1)	Assistant Returning Officer (2)
170.Sonkatch(SC)	1-Tehsildar, Sonkatch 2- Tehsildar, Tonkkhurd 3-Nayab Tehsildar, Sonkatch
171.Dewas	1-Tehsildar (Urban) , Dewas 2-Nayab Tehsildar-1, Dewas 3-Nayab Tehsildar-2, Dewas
172.Hatpipliya	1-Tehsildar, Hatpipliya 2- Tahsildar (Rural) , Dewas 3-Nayab Tehsildar, Hatpipliya
173.Khategaon	1-Tehsildar, Khategaon 2-Tehsildar, Kannod 3-Nayab Tehsildar, Khategaon
174.Bagali (ST)	1-Tehsildar, Bagali 2-Tehsildar, Satwas 3-Tehsildar, Udainagar
175.Mandhata	1-Tehsildar, Punasa 2-Nayab Tehsildar, Mundi 3-Nayab Tahsildar, Mohana
176.Harsud (ST)	1-Tehsildar, Harsud 2-Nayab Tehsildar, Harsud 3-Nayab Tehsildar, Khalwa
177.Khandwa(SC)	1-Tehsildar, Khandwa 2-Nayab Tehsildar-1, Khandwa 3-Nayab Tehsildar-2, Khandwa
178.Pandhana (ST)	1-Tehsildar, Pandhana 2-Nayab Tehsildar-3, Khandwa 3-Tehsildar, ChhaigaonMakhan
179.Nepanagar (ST)	1-Tehsildar, Nepanagar 2- Tehsildar , Khaknar 3-Nayab Tehsildar Tukaitad Tehsil , Khaknar
180.Burhanpur	1-Tehsildar, Burahanpur 2-Tehsildar, Burahanpur (Nagar) 3-Nayab Tehsildar , Burahanpur
181. Bhikangaon (ST)	1-Tehsildar, Tahsil Bhikangaon 2-Tehsildar, Tahsil Jhirnya 3-Nayab Tehsildar, Tahsil Jhirnya
182.Badwah	1-Tehsildar, Tahsil Barwaha 2-Tehsildar, Tahsil Sanawad 3-Nayab Tehsildar, Tahsil Barwaha
183.Maheshwar (SC)	1-Tehsildar, Tahsil Maheshwar 2-Nayab Tehsildar, Tahsil Maheshwar 3-Nayab Tehsildar, Tahsil Mandleshwar
184.Kasrawad	1-Tehsildar, Tahsil Kasrawad 2-Nayab Tehsildar , Tahsil Kasrawad 3-Nayab Tehsildar , Tahsil Kasrawad
185.Khargone	1-Tehsildar, Tahsil Khargone 2- Tehsildar , Tahsil Gogaon 3-Nayab Tehsildar, Tahsil Khargone

No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
186.Bhagwanpura(ST)	1-Tehsildar, Tahsil Bhagwanpura
	2-Tehsildar, Tahsil Segaoon
	3-Nayab Tehsildar, Tahsil Bhagwanpura
187.Sendhawa(ST)	1-Tehsildar, Sendhawa
	2-Nayab Tehsildar, Sendhawa
	3-Tehsildar, warla
188.Rajpur(ST)	1-Tehsildar, Rajpur
	2-Tehsildar, Thikri
	3- Tehsildar, Anjad
189.Pansema(ST)	1-Tehsildar, Pansema
	2- Tehsildar, Niwali
	3-Nayab Tehsildar, Pansema
190.Badwani(ST)	1-Tehsildar, Badwani
	2-Tehsildar, Pati
	3-Nayab Tehsildar, Barwani
191.Alirajpur(ST)	1-Tehsildar, Tehsil, Alirajpur
	2-Tehsildar, Tehsil, sondwa
	3-Nayab Tehsil, Alirajpur
192.Jobat(ST)	1-Tehsildar, Jobat
	2-Tehsildar, Chandra Shekhar Aajad nagar
	3-Nayab Tehsildar, Tehsil Jobat
193.Jhabua(ST)	1-Tehsildar, Jhabua
	2-Tehsildar, Ranapur
	3-Nayab Tehsildar, Jhabua
194.Thandla(ST)	1-Tehsildar, Thandla
	2- Tehsildar, Meghnagar
	3-Nayab Tehsildar, Thandla
195.Petlawad(ST)	1-Tehsildar, Petlawad
	2- Tehsildar, Rama
	3-Nayab Tehsildar, Petlawad
196.Sardarpur(ST)	1-Tehsildar, Sardarpur
	2-Nayab Tehsildar-1, Sardarpur
	3-Nayab Tehsildar-2, Sardarpur
197.Gandhwani (ST)	1-Tehsildar, Gandhwani
	2-Nayab Tehsildar-1, Kukshi
	3-Nayab Tehsildar-1, Dhar
198.Kukshi(ST)	1-Tehsildar, Kukshi
	2-Additional Tehsildar, Kukshi
	3-Nayab Tehsildar, Kukshi
199.Manawar(ST)	1- Tehsildar, Manawar
	2-Nayab Tehsildar-1, Manawar
	3-Nayab Tehsildar-2, Manawar
200.Dharamपुरi (ST)	1-Tehsildar, Dharamपुरi
	2-Nayab Tehsildar Vratt- Nalchha, Tehsil Pithampur
	3-Nayab Tehsildar-1, Dharamपुरi
201.Dhar	1-Tehsildar, Dhar
	2-Additional Tehsildar, Dhar
	3-Nayab Tehsildar-3, Dhar

No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
202.Badnawar	1-Tehsildar, Badnawar 2-Nayab Tehsildar-2, Badnawar 3-Nayab Tehsildar, Badnawar
203.Depalpur	1-Tehsildar, Depalpur 2- Tehsildar, Hatod 3-Nayab Tehsildar, Betma, Tehsil Depalpur
204.Indore-1	1- Tehsildar, Malharganj 2-Nayab Tehsildar-1, Malharganj 3-Nayab Tehsildar-2, Malharganj
205.Indore-2	1-Tehsildar, Kanadiya 2-Nayab Tehsildar, Kanadiya 3-Additional Tehsildar, Gautampura, Tehsil Depalpur
206.Indore-3	1-Tehsildar, Juni Indore 2-Nayab Tehsildar-1, Juni Indore 3-Nayab Tehsildar-2, Juni Indore
207.Indore-4	1-Tehsildar, Khudel 2-Nayab Tehsildar, Khudel 3-Assistant Superintendent, Land Record-2, Indore
208.Indore-5	1-Tehsildar, Bhicholi Hapsi 2-Nayab Tehsildar, Bhicholi Hapsi 3-Assistant Superetendant Revenue Inspector Training School, Indore
209.Dr. Ambedkar Nagar-Mhow	1-Tehsildar, Dr. Ambedkar Nagar (Mhow) 2-Tehsildar, Dr. Ambedkar Nagar (Mhow) 3-Nayab Tehsildar, Manpur
210.Rau	1-Tehsildar, Rau 2-Nayab Tehsildar, Rau 3-Assistant Superintendent, Land Record-3, Indore
211.Sanwer (SC)	1-Tehsildar, Sanwer 2-Nayab Tehsildar, Sanwer 3-Nayab Tehsildar, Kshipra
212.Nagada-Khachrod	1-Tehsildar, Khachrod 2-Tehsildar, Nagda 3-Nayab Tehsildar, Khachrod
213.Mahidpur	1-Tehsildar, Mahidpur 2- Tehsildar, Jharda 3-Nayab Tehsildar, Mahidpur
214.Tarana(SC)	1-Tehsildar, Tarana 2- Tehsildar, Makdon 3-Nayab Tehsildar, Tarana
215.Ghatiya(SC)	1-Tehsildar, Ghatiya 2-Nayab Tehsildar, Panbihar 3-Nayab Tehsildar, Unabel
216.Ujjain Uttar	1-Tehsildar, Ujjain City 2-Tehsildar, KothiMahal 3-Nayab Tehsildar, Ujjain City
217.Ujjain Dakshin	1-Tehsildar, Ujjain Rural 2-Nayab Tehsildar, Ujjain Rural 3-Nayab Tehsildar, KothiMahal

No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
(1)	(2)
218.Badnagar	1-Tehsildar, Badnagar
	2-Nayab Tehsildar, Badnagar
	3-Nayab Tehsildar, Ingoria
219.Ratlam Rural(ST)	1-Tehsildar, Ratlam Rural
	2-Nayab Tehsildar - 1, Ratlam Rural
	3-Nayab Tehsildar -2, Ratlam Rural
220.Ratlam City	1-Tehsildar, Ratlam City
	2-Nayab Tehsildar - 1, Ratlam City
	3-Nayab Tehsildar - 1, Ratlam City
221.Sailana(ST)	1-Tehsildar, Sailana
	2-Tehsildar, Bajna
	3-Tehsildar, Raoti
222.Jaora	1-Tehsildar, Jaora
	2-Tehsildar, Piplodha
	3-Nayab Tehsildar, Kalukheda
223.Alot(SC)	1-Tehsildar, Alot
	2- Tehsildar, Tal
	3-Nayab Tehsildar, Alot
224.Mandsour	1-Tehsildar, Mandsour
	2-Nayab Tehsildar-1, Mandsour
	3-Nayab Tehsildar-2, Mandsour
225.Malhargarh(SC)	1-Tehsildar Malhargarh
	2-Nayab Tehsildar, Malhargarh
	3-Nayab Tehsildar, Sanjeet
226.Suwasra	1-Tehsildar, Suwasra
	2-Nayab Tehsildar, Sitamau
	3-Nayab Tehsildar, Suwasra
227.Garoth	1-Tehsildar, Garoth
	2-Nayab Tehsildar, Garoth
	3-Nayab Tehsildar, Bhanpura
228.Manasa	1-Tehsildar, Manasa
	2-Nayab Tehsildar, Manasa
	3-Nayab Tehsildar, Rampura
229.Neemuch	1-Tehsildar, Neemuch
	2-Nayab Tehsildar, Neemuch
	3-Nayab Tehsildar, Jecran
230. Jawad	1-Tehsildar, Jawad
	2-Nayab Tehsildar, Singoli
	3-Nayab Tehsildar, Jawad

By order,
Sd./-
(AMIT KUMAR)
Secretary,
Election Commission of India.